

## सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन

स्रोत: पी.आई.बी

### चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय के लिये वैश्विक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय पर पहली दो दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया।

- इस समारोह के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा नगिम (ESIC) (24 फरवरी 1952 को स्थापित) का 74वाँ स्थापना दिवस भी मनाया गया।

### सामाजिक न्याय के लिये वैश्विक गठबंधन क्या है?

- **परिचय:** अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा वर्ष 2023 में सामाजिक न्याय के लिये शुरू किया गया वैश्विक गठबंधन का उद्देश्य सामाजिक न्याय की कमियों से निपटना तथा सतत विकास लक्ष्यों की दशा में प्रगति को बढ़ावा देना है।
- **उद्देश्य:** यह वैश्विक एकजुटता, नीतिगत सुसंगतता और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई के माध्यम से मजबूत, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
- **सदस्यता:** यह सरकारों, संगठनों, व्यवसायों और शि्षावर्गों के लिये है, जिसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्यों के तहत सामाजिक न्याय और श्रम अधिकारों के लिये प्रतियोगिता हैं।
  - सदस्यता सर्वैच्छिक है और भारत इसका सदस्य है।

### सामाजिक न्याय पर भारत के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **प्रस्तावना:** यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तथा स्थिति एवं अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है।
- **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है तथा अनुच्छेद 24 खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- **राज्य नीतिके निर्देशक सिद्धांत:**
  - अनुच्छेद 38: यह राज्य को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।
  - अनुच्छेद 39: यह समान आजीविका, उचित मजदूरी और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - अनुच्छेद 39A: यह वंचित लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 46: यह भेदभाव को रोकने के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के लिये विशेष शैक्षणिक और आर्थिक प्रोत्साहन का आदेश देता है।

### ESIC

- यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** यह 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों (यदि यह कोई परसिंकटमय उद्योग है, जैसे पटाखे, विषिले रसायन आदि, तो 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों) के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
- **पात्रता :** 21,000 रुपए प्रति माह वेतन भोगी कर्मचारी।
- **प्रदत्त लाभ:** चिकित्सा देखभाल, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, दवियांगता लाभ, आश्रित लाभ, और बेरोजगारी भत्ता।

**नोट:** ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज (स्वास्थ्य के अतिरिक्त) वर्ष 2021 में 24.4% था जो वर्ष 2024 में बढ़कर 48.8% हो गया है।

- भारतीय सनातकों की नयोजनीयता वर्ष 2013 में 33.95% थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 54.81% हो गयी है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संवधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का कसिमें उपबंध कया गया है? (2013)

- (a) उद्देशिका और मूल अधिकार
- (b) उद्देशिका और राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
- (c) मूल अधिकार और राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
- (d) उपरयुक्त में से कसिमें नहीं

उत्तर: (b)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/1st-regional-dialogue-on-social-justice>

